



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 11 मई 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

25 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़िता की दुःखद मृत्यु के कारण की हो उच्च स्तरीय जाँच: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान आंदोलन में सम्मिलित 25 वर्षीय युवती की सामूहिक बलात्कार के पश्चात हुई मृत्यु के कथित कारण “कोरोना” एवं राजनैतिक हस्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार को छिपाकर बलात्कारियों को बचाने के प्रयासों की उच्च स्तरीय जाँच की माँग करती हैं।

टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की आड़ में वामपंथी-अलगाववादियों ने मानवता को तार-तार कर आंदोलन में किसानों का साथ देने आयी युवती के सामूहिक बलात्कार की अभाविप कड़ी भर्त्सना करती है तथा इसमें लिप्त सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता अनुसार कठोरतम कार्रवाई की माँग दुहराती है।

विदित हो कि टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में किसान आन्दोलन कई दिनों से चल रहा है, जिसका समर्थन करने आन्दोलन में बंगाल से 25 वर्षीय यह युवती आई थी। जिसके साथ टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में लगे तंबू में किसानों की मुखौटा पहने हुए वामपंथी दरिद्रों ने दरिद्रगी की। इस दुष्कर्म मामले की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को थी, जिसे वे दबाना चाहते थे जिसमें योगेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है जिसमें से दो, अनूप सिंह चानौत तथा अनिल मलिक राजनैतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। अभाविप इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों पर त्वरित तथा कठोर कानूनी कार्रवाई की माँग करती है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “किसान आंदोलन की आड़ में लगातार एक के बाद एक युवतियों के साथ अमानवीय कृत्य वामपंथी नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी मामलों को दबाना और कार्यवाही ना करना अत्यंत निंदनीय हैं। अभाविप की माँग है कि इन घटनाओं को करने वाले एवं उन्हें संरक्षण देने वाले नेताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायें।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)